



भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY BHUBANESWAR
भुवनेश्वर / BHUBANESWAR – 751013

यात्रा भत्ता बिल/ TRAVELLING ALLOWANCE BILL

बिल सं/ Bill No..... दिनांक/dated..... वा.सं./Vr. No.....
लेखा शीर्ष/ Head of Account दिनांक/Dated.....
पूरा नाम/ Name in Full..... वै.सं./E.C.No.....
विभाग/केंद्र/स्कूल/अनुभाग/Dept./Centre/School/Section..... पदनाम/Designation.....
मूल वेतन/Basic Pay : ₹.....

यात्रा एवं विराम का विवरण/ PARTICULARS OF JOURNEY AND HALT

प्रस्थान/ Departure		आगमन/ Arrival		यात्रा की रीति / Mode of Journey			वास्त.व्यय Actual Exp. राशि / Amount (₹)	टिकट सं. एवं टिप्पणियाँ Ticket No. & REMARKS
स्टेशन Station	दिनांक एवं समय Date & Time	स्टेशन Station	दिनांक एवं समय Date & Time	वायु/रेल/रोड Air/Rail/Road	यात्रा की श्रेणी / Class of Journey	भाड़ा की संख्या एवं कि.मि./ No. of Fares & Kms		

यात्रा का उद्देश्य एवं प्राधिकारी / PURPOSE OF JOURNEY & AUTHORITY

* सरकारी नियमानुसार वायुरेल (II श्रेणी से ऊपर) द्वारा की गई यात्रा का टिकट नं. लिखें/ Ticket No. is to be mentioned for journey made by Air/Train (Above 2nd class) as per Government rules.

1. प्रमाणित किया जाता है कि मेरे के विराम के दौरान मुझे अतिथि के रूप में व्यवहार किया गया था/ नहीं किया गया था और मेरे आवास और भोजन की व्यवस्था राज्य शासकीय/भारत सरकार और अन्य संगठनों द्वारा वहन की गई थी/नहीं की गई थी। Certified that I was/ I was not treated as Guest during my halt at..... and was/was not provided with board and lodging/ lodging only at state expenses/at the expenses of the Government of India or another organization.

2. ₹ की अग्रिम राशि मेरे द्वारा को इस उद्देश्य के लिए ली गई थी और यह बिल के सम्मुख समायोजित की जाएगी। An advance of ₹..... was drawn by me for this purpose on..... and is to be adjusted against the bill.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यह बिल किसी और से संबंधित नहीं है और न ही किसी अन्य स्रोतों से इसका भुगतान किया जाएगा। Certified that this claim is not preferred to and paid from any other sources.

4. प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक..... से..... के दौरान मैं (होटल का नाम/स्थापना) में ठहरा था और उन्होंने स्वीकृत टैरिफ के अनुसार आवास एवं भोजन की व्यवस्था की थी। Certified that I stayed fromto..... at (Name of Hotel/Establishment) which provided me Board and Lodging at sanctioned tariffs.

अग्रेषित / FORWARDED

.....
विद्यापीठाध्यक्ष/केंद्राध्यक्ष/अनुभाग प्रभारी के हस्ताक्षर
Signature of HOS/HOC/Section-in-charge

.....
कर्मचारी के हस्ताक्षर एवं दिनांक
Signature of the Employee & Date

(केवल कार्यालय प्रयोग हेतु/ FOR OFFICE USE ONLY)

		₹	पै./P	
1.	वायु/रेल/रोड/ Air/Rail/Road			लेखा परीक्षा ज्ञापन अधिकता/ Audit Memo Enhancement
2.	रोड मार्ग यात्रा कि.मी. में/ Road Travel in K.M @प्रीपेड टैक्सी हेतु/ For prepaid taxi** (संस्थान का सामान्य या.भा नियम लागू होगा/Normal Institute TA rule be allowed)			Checked and admitted for ₹..... (Rupees.....रुपए) की जाँच की गई और स्वीकार की गई
3. दिनों के लिए दैनिक भत्ता दावा किया गया। Daily allowance claimed for no. of days.....			Objected to ₹..... पर आपत्ति की गई आपत्ति का कारण/ Reason for objection.....
	कुल/ TOTAL :			
4.	आहरण यात्रा भत्ता का घटाव/ Deduct TA advance drawn बिल सं./Bill No..... दिनांक/Date			
5.	अन्य कटौती/Other deduction.....			वरि.लेखापरीक्षक Senior Auditor
	कुल दावा/ Net Claim :			लेखापरीक्षक अधिकारी Audit Officer
रुपए/Rupees:				

मैं यह प्रमाणित करता हूँ उपरोक्त दी गई बिल नियम एवं विनयानुसार है और सही क्रम में है और
₹..... (रुपए.....
.....के लिए पारित
**I certify that the above bill is accordance with rules and regulations and is
otherwise in order and passed for ₹..... (Rupees.....**
.....

लेखाकार/Accountant
(लेखा/Acct)

सहा.कुलसचिव/Asst. Registrar
(आहरण अधिकारी/ Drawing Officer)

प्रतिहस्ताक्षरित / Countersigned


कुलचिव/ Registrar

Pay ₹..... (Rupees..... रुपए) अदा करें।

सहा.कुलसचिव/Asst. Registrar (लेखा/Acct)
(आहरण अधिकारी/ Drawing Officer)

रोकड़ अनुभाग में प्रयोग हेतु/ FOR USE IN CASH SECTION

संबंधित भुगतान/ Acquaintance payment



नकद में/ चेक सं..... द्वारा भुगतान प्राप्त हुआ
Received payment in cash/by cheque No.....

हस्ताक्षर/ Signature

खजांची/Cashier

